

अंतर्जनपदीय शातिर चोर पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, चोरी का माल नगदी, आभूषण सहित अवैध शस्त्र बरामद ।

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहापुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन व थानाध्यक्ष मानबहादुर सिंह के नेतृत्व में मिर्जापुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली ।

इसी क्रम में दिनांक 19.01.21 की रात्रि 21.00 बजे थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **पुलिस मुठभेड के दौरान ग्राम जैथपुर मोड** से अभियुक्त मुस्तैन पुत्र मौ0 हसन को गिरफ्तार किया गया तथा इसके 03 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये एक जोड़ी पायल सफेद धातु व एक अँगूठी पीली धातु व दो हजार रूपये नगद(पाँच सौ के चार नोट) व एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 16/21 धारा 41/102 Crpc व 411 IPC 2-मु0अ0सं0 17/21 धारा 307 भादवि 3-मु0अ0सं0 18/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ पर दिनांक **27/28.11.20** की रात्रि को ग्राम अलेपुर थाना शमशाबाद जनपद फर्रुखाबाद के 03 घरों में चोरी कारित करना स्वीकार किया, **चोरी के सम्बन्ध में पूर्व में थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 336/20 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मुस्तैन पुत्र मौ0 हसन निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

फरार अभियुक्त -

- 1-बडे पुत्र आसीन निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।
2. मुस्ताक उरफ चाडू पुत्र खुश मौहम्मद निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।
3. मुनीष पुत्र यासीन खाँ निवासी ग्राम आजाद नंगला थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण :-

- 1-मु0अ0सं0 16/21 धारा 41/102 Crpc व 411 IPC
- 2-मु0अ0सं0 17/21 धारा 307 भादवि (पु0मु0)
- 3-मु0अ0सं0 18/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम मुस्तैन पुत्र मौ0 हसन नि0 ग्राम इस्लामनगर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण -

1. 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
2. 01 अँगूठी पीली धातु
3. 02 हजार रूपये नगद(पाँच सौ के चार नोट)
4. 01 अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण -

थानाध्यक्ष मानबहादुर सिंह थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर।

- | | |
|---|---|
| 1-उ0नि0 रामकिशोर सिंह थाना मिर्जापुर शाह0 | 2-उ0नि0 विपिन कुमार शर्मा थाना मिर्जापुर शाह0 |
| 3-हे0का0 240 मौ0 सलीम थाना मिर्जापुर शाह0 | 4-का0 1037 विनोद कुमार थाना मिर्जापुर शाह0 |
| 5-का0 1754 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर शाह0 | 6-का0 1755 राहुल भारती थाना मिर्जापुर शाह0 |

